



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1977 आषाढ 17, 1899

No. 264]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1977/SRAVANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 8th August 1977

**G.S.R.556(E)/Ess. Com.Sugar.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination for 1976-77 Production) Order, 1976, namely —

1 (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1976-77 Production) Second Amendment Order, 1977.

(2) It shall come into force at once.

2 In Schedule I to the Sugar (Price Determination for 1976-77 Production) Order, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), for the item "North Bihar" in column (1) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely —

1	2	3	4	5	6	7
"7 North Bihar excepting the area in which Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, District Muzaffarpur is situated.	219 04	218 09	217 54	218 24	217 74	

1	2	3	4	5	6	7
7a. North Bihar in which Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, District Muzaffarpur is situated	213 73	212 58	212 03	212 73	211 73	211 23

3 In Schedule II to the said Order, for the item "North Bihar" in column 1, and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely —

1	2	3	4	5	6	7
"North Bihar excepting the area in which Belsund Sugar Co. Ltd., P O Righa, District Muzaffarpur is situated.	219 16	218 01	217 47	218 16	217 16	216 66
North Bihar in which Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, District Muzaffarpur is situated	213 65	212 50	211 95	212 65	211 65	211 15"

[No. 2-14/76-SPY (Desk-II)]

C N RAGHAVAN, Joint Secy

### कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(लाघ विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1977

सांकांनि० 556(प्र) आ०ब० शर्करा — केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शर्करा (1976-77 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1976-77 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) द्वितीय संशोधन, आदेश, 1977 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (1976-77 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) की प्रथम अनुसूची में स्तम्भ (1) में मद "उत्तरी बिहार" और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"7. उत्तरी बिहार, उस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें बेलसुन्द सुगर कम्पनी लिमिटेड, डाकघर रीघा, जिला मुजफ्फरपुर स्थित है।	219 24	218 09	217 54	218.24	217.24	216.74

1	2	3	4	5	6	7
7क. उत्तरी बिहार का वह क्षेत्र जिसमें बेलसन्ड मुगर कम्पनी लिमिटेड, डाकघर रीघा, जिला मुजफ्फरपुर स्थित है।						
213.73	212.58	212.03	212.73	211.73	211.23	

3. उक्त आदेश की अनुसूची II में मद "उत्तरी बिहार" और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"उत्तरी बिहार, उम क्षेत्र को छोड़कर जिसमें बेलसन्ड मुगर कम्पनी लिमिटेड, डाकघर रीघा, जिला मुजफ्फरपुर स्थित है।						
	219.16	218.01	217.46	218.16	217.16	216.66
उत्तरी बिहार का वह क्षेत्र, जिसमें बेलसन्ड मुगर कम्पनी लिमिटेड, डाकघर रीघा जिला मुजफ्फरपुर स्थित है।						
	213.65	212.50	211.95	212.65	211.65	211.15

[सं० 2-14/76-एस० पी० आई०—(डेस्क-II)]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव।

